



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 259) पटना, शुक्रवार, 1 अप्रील 2016

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

30 मार्च 2016

सं0 21/एस0एस0सी0-36/2012-4659—बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 के लागू होने के पश्चात् उसके क्रियाशील होने में संभावित विलंब को देखते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-13273 दिनांक 22.09.2014 एवं पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या-8039 दिनांक 04.06.2015 द्वारा यह आदेश दिया गया कि बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 के अनुसूची में सम्मिलित ऐसे सभी पदों, जिनके लिए पूर्व में बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाएँ आयोजित कर चयन की कार्यवाही करता था, के लिए चयन की आवश्यक कार्यवाहियाँ एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारंभ की गयी प्रक्रिया पूर्ववत् पूर्ण की जाती रहेगी।

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग को क्रियाशील करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं अभी भी कतिपय कार्यवाहियाँ शेष हैं। इन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के बाद ही बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाएँ आयोजित करने हेतु विधिवत् कार्य आरंभ कर सकेगा।

अतः बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-16(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि नवगठित आयोग के क्रियाशील होने तक “बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014” की अनुसूची में सम्मिलित ऐसे सभी पदों, जिनके लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग अपनी अनुसूची में सम्मिलित पदों के लिए परीक्षाएँ आयोजित कर चयन करता था, के लिए चयन की आवश्यक कार्यवाहियाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्ववत् की जाती रहेंगी।

बिहार तकनीकी कर्मचारी आयोग के क्रियाशील होने की अधिसूचना अलग से निर्गत की जायेगी। बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के क्रियाशील होने की अधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त भी जिन तकनीकी पदों के लिए “बिहार कर्मचारी चयन आयोग” द्वारा विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित किया जा चुका होगा, नियुक्ति के लिए चयन की कार्यवाही बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही पूर्ण की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 259-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>